



पुलिस थाना-बड़ागाँव, जनपद-वाराणसी कमिश्नरेट ।

उत्तर प्रदेश पिन नं-221204

प्रेस नोट

थाना बड़ागाव पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को 55 किग्रा0 नाजायज गाँजा के साथ गिरफ्तार किया गया व घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक टाटा वाहन को सीज किया गया ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी में अपराध व अपराधियों व अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में एवं श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के निर्देशन में दिनांक 10.03.2023 को श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के कुशल नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ का व्यापार करने वाले के विरुद्ध थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर टाटा ट्रक वाहन से तीन बोरियों में 55 किग्रा0 अवैध गाँजा बरामद किया गया ।

दिनांक 10.03.2023 को जरिये मुखबिर सूचना मिलने पर कि एक टाटा मिनी ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गाँजा की खेप रिंग रोड फेज 2 से हरहुआ की तरफ आने वाली है कि सूचना पर श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त पिण्डरा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक बड़ागाव मय पुलिस बल के रिंग रोड फेज 2 कोईराजपुर वरूणा नदी ओवर ब्रिज के उपर आने वाले सभी वाहनो की चेकिंग करने के दौरान उक्त वाहन TATA मिनी ट्रक REG. NO. DL1GC1567 को आते हुए देख रोक कर चेक किया गया तो वाहन के ढाले में बने बाक्स (कैविटी) में छिपाकर रखे तीन अलग अलग बोरो में कुल 55 किग्रा0 अवैध गाँजा बरामद किया गया तथा पकड़े गये चालक मृत्युन्जय पाटिल पुत्र स्व सुदामा सिंह निवासी ग्राम कुरमी विगहा थाना वंशी सोनभद्र जिला अरवल बिहार उम्र करीब 32 वर्ष से पूछताछ करने पर कोई कागजात प्रस्तुत न करने के कारण उक्त व्यक्ति को मय वाहन मय अवैध गाँजे के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0स0 69/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में विधिक कार्यवाही किया जा रहा है ।

अभियुक्त का नाम पता:

1. मृत्युन्जय पाटिल पुत्र स्व सुदामा सिंह निवासी ग्राम कुरमी विगहा थाना वंशी सोनभद्र जिला अरवल बिहार उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान – दिनांक 10.03.2023 समय करीब 12.30 बजे रात्रि कोईराजपुर वरूणा नदी के पास थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।

पंजीकृत अभियोग जिसके अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई है का विवरण –

मु0अ0सं0- 069/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।

बरामदगी का विवरण –

55 किग्रा0 नाजायज गाँजा ।

पुलिस टीम का विवरण:

एसीपी श्री अमित कुमार पाण्डेय सर्किल पिण्डरा वाराणसी कमि0 ।

निरीक्षक श्री बृजेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बड़ागाव वाराणसी कमि0 ।

उ०नि० श्री सचिन पटेल चौकी प्रभारी हरहुआ ।

उ०नि० श्री हरिनारायण शुक्ला

उ०नि० श्री विक्रम सिंह

का० कमल प्रजापति

का० दिनेश कुमार

का० अंकित सरोज

का० पंकज कुमार सिंह

थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी कमिश्नरेट ।

फोटो –

